

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 1970/चैत्र 4, 1892
No. 109] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 1970/CHAITRA 4, 1892

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March 1970

S. O. 1174—In pursuance of sub-rule (b) of rule 13 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) (Election to the Provisional Assembly) Rules, 1970, the following is published for general information.

FORM 5

[See Rule 13 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) (Election to the Provisional Legislative Assembly) Rules, 1970]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the Provisional Legislative Assembly of Meghalaya from the Electoral College of the Autonomous District of Jowai.

Sl. No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1	Shri Edwingson Bareh	Barato, Mynso B.P.O.
2	Smt. Rophimai Lamar	Iawmusiang, Jowai P.O.
3	Shri Ohlwot Khonglah	Jowai, Jowai P.O.
4	Shri Johndeng Pohrmu	Nongtalang, B.P.O.
5	Shri Beryl Sutnga	B.P.O. Sutnga Via Jowai.

The poll will be taken between the hours of 10 A.M. and 3 P.M. on the 20th March, 1970.

Dated Jowai,
the 16th March,
1970.

(Sd.) J. ROPMA Y,
Assistant Returning Officer
For Election to the Provisional
Legislative Assembly of Meghalaya
[No. 464/MEG/70.]

By Order,
K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च 1970

एच० अं० 1174—असम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन) नियम, 1970 के नियम 13 के उप-नियम (ख) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचना के लिए किया जाता है :—

(प्ररूप 5)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[असम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन)
नियम 1970 का नियम 13 देखिये]

जोवाई स्वायत्त जिले के निर्वाचक गण से मेघालय की अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन ।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1	श्री एडविंगसन बरैह	बरातो, मिन्सो बी० पी० ओ०
2	श्रीमती रोफीमाई लामर	लावमुस्तंग, जोवाई पी० ओ०
3	श्री ओहिबोट खोन्गलाह	जोवाई, जोवाई पी० ओ०
4	श्री जोनेडेन्ग पोहर्मन	नॉंगतलाग, बी० पी० ओ०
5	श्री बेर्यल सुतन्गा	बी० पी० ओ० सुतगावाया जोवाई

मतदान 20 मार्च, 1970 को 10 बजे पूर्वान्ह और 3 बजे अपरान्ह के बीच होगा ।

जोवाई,

तारीख 16, मार्च, 1970

(ह०) जे० रोपमे,

मेघालय की अस्थायी विधान सभा के निर्वाचन के
लिए सहायक रिटनिंग आफिसर ।

[स० 464/मेघा, 70]

प्रादेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।